



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 पौष 1940 (श0)
(सं0 पटना 05) पटना, बुधवार, 2 जनवरी 2019

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

अधिसूचना

21 दिसम्बर 2018

सं0 नि०प्रा०/नि० 1-09/2017—1352— चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा 14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निर्बंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो या तो अधिक्रमित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

और, चूँकि बिहार सहकारी सोसायटी संशोधन अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधान के अनुसार जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, सीतामढ़ी के निदेशक मंडल के रिक्त पदों- (i) निदेशक महिला- सामान्य, (ii) निदेशक अनुसूचित जाति- पुरुष, (iii) निदेशक अनुसूचित जाति- महिला एवं (iv) निदेशक प्रोफेशनल- अतिपिछड़ा वर्ग का उप निर्वाचन संपन्न कराया जाना है।

अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा 14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा परिशिष्ट-1 में अंकित कार्यक्रम के अनुसार जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, सीतामढ़ी के निदेशक मंडल के रिक्त पदों- (i) निदेशक महिला- सामान्य, (ii) निदेशक अनुसूचित जाति- पुरुष, (iii) निदेशक अनुसूचित जाति- महिला एवं (iv) निदेशक प्रोफेशनल- अतिपिछड़ा वर्ग के निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान हेतु दिनांक 29-

01-2019 (मंगलवार) की तिथि नियत करता है तथा संबंधित मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन उपर वर्णित पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र संख्या-1195 दिनांक 06.11.2018 से मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ तिथि दिनांक 31.10.2018 निर्धारित की गयी है एवं तदनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 06.12.2018 को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जा चुका है।

निर्वाचन पदाधिकारी निदेशक मंडल के उक्त पदों के उप निर्वाचन के लिए संलग्न मानक प्रपत्र-ई 1 में आवश्यक प्रविष्टियाँ अंकित कर सूचना दिनांक 03.01.2019 (गुरुवार) को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त समिति के संबंध में निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को निर्वाचन पदाधिकारी की हस्तपुस्तिका में अंकित प्रपत्र ई 6 में विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को प्रपत्र ई 18 में निर्वाचित सदस्यों की सूची उन्हीं तिथियों को फैक्स (0612-2231562, 2215089) अथवा ई-मेल (bseapatna@gmail.com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

आदेश से,
गिरीश शंकर,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

परिशिष्ट-1

जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, सीतामढ़ी के उप निर्वाचन
हेतु निर्वाचन कार्यक्रम

| | | |
|-------|--|--|
| (i) | निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-ई 1 में सूचना का प्रकाशन | 03.01.2019 (गुरुवार) |
| (ii) | नामांकन की तिथि एवं समय | 18.01.2019 (शुक्रवार) एवं 19.01.2019 (शनिवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक |
| (iii) | संवीक्षा की तिथि एवं समय | 21.01.2019 (सोमवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक |
| (iv) | अभ्यर्थिता वापसी | 22.01.2019 (मंगलवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक |
| (v) | मतदान, अगर आवश्यक हो | 29.01.2019 (मंगलवार) 7 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक |
| (vi) | मतगणना | 29.01.2019 (मंगलवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्) |

जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक निर्वाचन

प्रपत्र ई०-1

सूचना का प्रपत्र

जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक,, निबंधन संख्या....., पताके निदेशक मंडल का निर्वाचन दिनांक.....को किया जाना है,

मैं..... (निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) निर्वाचन पदाधिकारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-

आम सूचना

(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है -

| पद | निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या |
|----|---|
| 1. | 2. |
| | |

(ii) नामांकन पत्र अद्योहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय..... (स्थान का नाम) अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर सकने की स्थिति में(उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) को..... (स्थान का नाम) पर दाखिल किया जा सकता है। नामांकन पत्र दिनांक (नामांकन पत्र दाखिला की तिथि) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है।

(iii) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक.....से दिनांक..... तक.....बजे से.....बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

(iv) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक.....को..... (स्थान का नाम) पर 11 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ होगी एवं लगातार चलती रहेगी।

(v) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक.....को अपराह्न बजे के पूर्व तक (स्थान का नाम) पर दाखिल की जा सकती है।

(vi) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक.....को 07 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक होगा।

(vii) मतगणना दिनांक.....कोबजे से..... (स्थान का नाम) पर की जायेगी।

स्थान-

तिथि

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 05-571+50-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>